



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 322] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1982/कार्तिक 10, 1904
No. 322] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1982/KARTIKA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1982

सं० 233/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां० 643(अ) :—केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के यथाम्यक्ति, वित्त मंत्रालय (राजस्व
विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की विनियमित अधिसूचनाओं
को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् —

1. 177/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
2. 244/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977
3. 320/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 नवम्बर, 1977
4. 204/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 जून, 1979
5. 161/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 अक्तूबर, 1980
6. 45/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981
7. 103/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982

[सां०सं० 349/1/68/82-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st November, 1982

NO. 233/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 643(E).—In exercise of the powers conferred by sub-
rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Cen-
tral Government hereby rescinds the following notifications of
the Government of India in the Department of Revenue and
Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue)
as the case may be, namely :—

1. 177/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977.
2. 244/77-Central Excises, dated the 15th July, 1977.
3. 320/77-Central Excises, dated the 18th November, 1977.
4. 204/79-Central Excises, dated the 6th June, 1979.
5. 161/80-Central Excises, dated the 15th October, 1980.
6. 45/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.
7. 103/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982

[F. No. 349/1/68/82-TRU]

सं० 234/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०सा०नि० 644(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 104/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिकांश करते हुए, इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पृथक् अनुसूची की भद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्घटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

अनुसूची

1. सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद और खाद्य निमित्तियाँ, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

- (1) मांस और मांस उत्पाद;
- (2) डेरी उत्पाद;
- (3) फल और सब्जियाँ उत्पाद;
- (4) मछली और समुद्री खाद्य;
- (5) बेकरी उत्पाद; और,
- (6) अनाज मिला उत्पाद;

2. भारोष्ण और गणितीय उपकरण।

3. अभ्यास पुस्तिकाएँ।

4. लेखन स्लेट और स्लेट पेन्सिलें।

5. पैसिया और रबड़ (इरेजर)।

6. पैन जिनके अन्तर्गत बाल-पेंट पैन और उनके पुर्जे और बाल पेंट पैन के रिफिल हैं।

7. बस्म, बस्म के लेंस और बस्म के फ्रेम।

8. खेल सामान।

9. हस्तशिल्प।

10. पशु-खाद्य, जिनके अन्तर्गत योगिक पशुधन खाद्य है।

11. कम्पोस्ट खाद्य।

12. हस्त-मप।

13. कृषि डिस्क।

14. कृषि औजार और उनके पुर्जे किन्तु जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(1) शक्ति-चालित कृषि औजार और उनके पुर्जे, तथा

(2) ऐसे औजार जो ट्रैक्टरों और शक्ति टिलरों के संलग्नकों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और उनके पुर्जे।

15. वासिय सूना (वाहय)।

16. कथा (कैथ्यू)।

17. विभूति (धिरुनीरु)।

18. पिसे मसाले (स्पाइसेज और मिश्र मसाले)।

19. संदलित अम्ल और अम्ल उत्पाद।

20. कीटनाशी, पीड़कनाशी, खर-पतवारनाशी, कवकनाशी।

21. सभी प्रकार औषधि, औषध और औषधि मध्यम जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

22. गर्भान्तरोधक।

23. स्क्वायरिड (स्क्वायरिड)।

24. नृधन उद्योग के सभी उत्पाद जिनके अन्तर्गत समाचारपत्र और मुद्रित निधनकालिक पत्रिकाएँ हैं।

25. टेक्स्टाइल उद्योग में उपयोग के लिए उद्योगी मशीन के बेल्ट और मिलिटर।

26. सिवार्ड मशीनें और उनके पुर्जे।

27. साइकिलें और उनके पुर्जे।

28. इलेक्ट्रिक साइकिलें।

29. मोमबत्तियाँ।

30. बत-बुश।

31. विद्युत्-मशीनों के लिए कृत्रिम बर्फ और पुनर्वीम मशीन संयंत्र।

32. सागरगामी जलयान।

33. लाइव।

34. त्रोजरी की बस्तियाँ।

35. चादों की पट्टियाँ, तारें, चादरें, प्लेटें, और पणिकाएँ।

36. पटलित पटलन के बने।

37. हूरे, काटे गए या तराशे गए या दोनों।

38. पशु-निर्माण के बने बर्तन।

39. शक्ति टिलर।

40. डैलमेट।

41. श्वकलागो द्वारा उपयोग किए जाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए यान।

परन्तु उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट खाद्य उत्पादों और खाद्य निमित्तियों के अन्तर्गत कथित मिष्ठान, टाफिया, कैरामेल, कैण्डी, बुड़ फल (जिनके अन्तर्गत बादाम हैं) और मिठाई कारकों में विहित फल गिनियाँ नहीं हैं।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में "प्रकार औषधि" से कोई रासायनिक या जीव या पक्ष उत्पाद अभिप्रेत है जो भेषजकोशीय मानदण्डों के अनुरूप है और मानव या पशुओं के रोगों का निदान उपचार, प्रशमन या निवारण करने में उपयोग किया जाता है और किसी सूत्र में उसी रूप में या किसी अवस्था के रूप में उपयोग किया जाता है।

[फा० सं० 349/1, 68, 82-टीनारू]

NO. 234/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 644(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) No. 104/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in the Schedule hereto annexed and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

SCHEDULE

1. All kinds of food products and food preparations, including—

(i) meat and meat products,

(ii) dairy products;

(iii) fruit and vegetable products;

(iv) fish and sea foods;

(v) bakery products; and

(vi) grain mill products.

2. Drawing and mathematical Instruments.

3. Exercise books.

4. Writing slates and slate pencils.
5. Pencils and erasers.
6. Pens, including ball point pens, and parts thereof and refills for ball point pens.
7. Spectacles, spectacle lenses and spectacle frames.
8. Sports goods.
9. Handicrafts.
10. Animal food including compound livestock food.
11. Compost manure.
12. Hand pumps.
13. Agricultural discs.
14. Agricultural implements and parts thereof but excluding—
 - (i) power operated agricultural implements and parts thereof, and
 - (ii) implements designed for use as attachments with tractors or power tillers and parts thereof.
15. Scented Chunnam (lime).
16. Katha (Gatechu).
17. Vibuthi (Thiruneeru).
18. Ground spices (masalas) and mixed spices (Masalas).
19. Crushed bones and bone products.
20. Insecticides, pesticides, weedicides and fungicides.
21. All bulk drugs, medicines and drug-intermediates not elsewhere specified.
22. Contraceptives.
23. Guar splits.
24. All products of the printing industry including newspapers and printed periodicals.
25. Engraved copper rollers or cylinders for use in textile industry.
26. Sewing machines and parts thereof.
27. Cycles and parts thereof.
28. Enamelware.
29. Candles.
30. Tooth-brushes.
31. Artificial limbs and rehabilitation aids for the handicapped.
32. Ocean-going vessels.
33. Lac.
34. Articles of hosiery.
35. Strips, wires, sheets, plates and foils of silver.
36. Laminated jute bags.
37. Diamonds, cut or polished or both.
38. Utensils made of aluminium.
39. Power tillers.
40. Helmets.
41. Vehicles specially designed for use by the handicapped.

Provided that food products and food preparations specified in the said Schedule shall not include boiled sweets, toffees, caramels, candies, nuts (including almonds) and fruit kernels coated with sweetening agent.

Explanation.—In this notification "bulk drugs" means any chemical or biological or plant product, conforming to pharmacopoeial standards, used for the diagnosis, treatment, mitigation or prevention of diseases in human beings or animals, and used as such or as an ingredient in any formulation.

[F. No. 349/1/68/82-TRU]

सं० 237/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 645(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 5/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 27 फरवरी 1980 को अधिकांश करने हुए इससे उपाखण्ड सारणी

के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1911 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले माल को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जिसकी उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है।

भारण

क्रम सं०	वर्णन	दर
(1)	(2)	(3)
1.	पोलीविनायल क्लोराइड	मूल्य का पैंतीस प्रतिशत।
2.	पोलीप्रोपिलीन	मूल्य का सत्ताइस प्रतिशत।
3.	अन्य	मूल्य का बत्तीस प्रतिशत।

[फा०सं० 349/1/15ए/82-टी०आर०यू]

NO. 237/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 645 E—In exercise of the powers conferred by sub-rule (b) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 5/80-Central Excises, dated the 27th February, 1980, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Polyvinyl chloride	Thirty-five per cent <i>ad valorem</i> .
2.	Polypropylene	Twenty-seven per cent <i>ad valorem</i> .
3.	Others	Forty per cent <i>ad valorem</i> .

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 238/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 646(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 26/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाली पोलिक्लोराइड फिल्मों को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जिसकी मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

[फा०सं० 349/1/15ए/82-टी०आर०यू]

NO. 238/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby exempts polyester films, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty per cent ad valorem.

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 239/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 647(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 204/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 26 दिसम्बर, 1981 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले सेल्यूलोस एसिटेट ब्लाई ग्रेयुल को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी मूल्य के बस प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

2. यह अधिसूचना 25 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है प्रवृत्त रहेगी।

[फा०सं० 349/1/15ए/82-टी०आर०यू०]

NO. 239/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 204/81-Central Excises, dated the 26th December, 1981, the Central Government hereby exempts cellulose acetate moulding granules, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of ten per cent, ad valorem.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of 25th day of December, 1983.

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 240/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 648(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 47/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले बाल्कनीकृत फाइबर को उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

[फा०सं० 349/1/15ए/82-टी०आर०यू०]

NO. 240/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 648(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 47/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982 the Central Government hereby exempts vulcanised fibres, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of eight per cent, ad valorem.

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 241/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 649(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 190/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जून, 1982 को अधिकांश करते हुए, उससे उपायधन अनुसूची में विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले माल को (जिनके अन्तर्गत ऐसे माल का ब्लाई पाउडर भी है) उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

अनुसूची

1. फेनोल फारमैल्डोहाइड रेजिन
2. यूरिया फारमैल्डोहाइड रेजिन
3. मेलामाइन फारमैल्डोहाइड रेजिन
4. पोलिएस्टर रेजिन
5. एपाक्सी रेजिन
6. एटाइरीन एक्रिलोनाइट्राइल
7. नायलोन रेजिन
8. पालीनैथिल मैथैक्रिलेट
9. पाली फोमोलीन आक्साइड
10. पालीब्यूटाल टेरैफ्थेलेट
11. एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटायाइम स्टाइरीम रेजिन
12. पाली कार्बोनेट
13. पाथिएसेल्टस रेजिन
14. पाथिटेडाफुथोरोएथिलीन
15. पार्लसल्कोम
16. पारिएस्टाइरीन रेजिन

2. यह अधिसूचना 20 जून, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा०सं० 349/1/15ए/82-टी०आर०यू०]

NO. 241/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue)

No. 190/82-Central Excises, dated the 3rd June, 1982, the Central Government hereby exempts the goods specified in the Schedule hereto annexed (including moulding powers of the said goods) and falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent ad valorem.

SCHEDULE

1. Phenol formaldehyde resins
2. Urea formaldehyde resins
3. Melamine formaldehyde resins
4. Polyester resins
5. Epoxy resins.
6. Styrene acrylonitrile
7. Nylon resins
8. Polymethyl methacrylate
9. Polyphenylene oxide
10. Polybutyl terephthalate
11. Acrylonitrile butadiene styrene resins
12. Polycarbonates
13. Polyacetals resins
14. Polytetrafluorethylene
15. Polysulphenes
16. Polystyrene resins

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th June, 1985.

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 242/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 650 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 192/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जून, 1982 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की सब सं० 15क की उपसब (3) के अन्तर्गत आने वाले कड़े पोलियूरीथेन को, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए 'कड़े पोलियूरीथेन फोम' से ऐसा कोशकीय पोलियूरीथेन फोम अभिप्रेत है जिसकी यदि घनत्व का मानक (अभिधान ए०एस०टी०एम०टी०-2341) के अनुसार परीक्षण किया जाए तो संपीड़न प्रबलता 0.418 से 28.14 किलोग्राम/से०मी०² तक और घनत्व प्रबलता 1.05 से 28.14 किलोग्राम/से०मी०³ तक होगी।

2. उपरोक्त छूट वहां भी लागू होगी जहां उपरोक्त फोम को कारखाने से हटाया नहीं जाता है किन्तु उसका उपयोग या उपभोग पोलियूरीथेन फोम के किसी अन्य माल के विनिर्माण में उसी रूप में या कोई संसाधन या संसाधनों के लिए जाने के पश्चात् किया जाता है, चाहे वह प्रक्रिया निरन्तर है या नहीं।

3. यह अधिसूचना 8 सितम्बर, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

[फा० सं० 349/1/15ए०/82-टी०आर०यू०]

NO. 242/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 650(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 198/82-Central Excises, dated the 9th June, 1982, the Central Government hereby exempts rigid polyurethane foam, falling under sub-item (3) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent ad valorem :

Explanation : For the purpose of this notification, "rigid polyurethane foam" means cellular polyurethane with compressive strength of 0.418 to 28.14 kg/cm² and flexural strength of 1.05 to 28.14 kg/cm² when tested in accordance with American Standard (Designation ASIM D-2341).

2. The aforesaid exemption shall also be applicable where the said foam is not removed from the factory but is consumed or utilised as such or after subjection to any process or processes in the manufacture of any other goods of polyurethane foam, whether in a continuous process or otherwise.

3. This notification shall be in force upto and inclusive of the 8th September, 1983.

[F. No. 349/1/15A/82-TRU]

सं० 243/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० नि० 651 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विनष्टित करती है, प्रस्तावित:—

1. 141/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 मई, 1978
2. 52/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1977
3. 164/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
4. 165/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977
5. 335/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 सितम्बर, 1977
6. 107/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1978
7. 72/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
8. 73/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979
9. 92/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
10. 93/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982
11. 94/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982

[फा० सं० 349/1/34/82-टी०आर०यू०]

NO. 243/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 651(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or in the Department

of Revenue and Banking or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, namely :—

1. 141/75-Central Excises, dated the 23rd May, 1975
2. 52/77-Central Excises, dated the 6th April, 1977
3. 164/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977
4. 165/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977
5. 335/77-Central Excises, dated the 2nd December, 1977

6. 107/78-Central Excises, dated the 27th April, 1978
7. 72/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979
8. 73/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979
9. 92/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982
10. 93/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982
11. 94/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982

[F. No. 349/1/34/82-TR(I)]

सं० 244/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 652 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाकृत मारणों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 की, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, उपमदों के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों का उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क को उतनी रकम से जितनी उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है उसके स्तम्भ (5) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में अधिकतम शर्तों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए छूट देती है।

सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	मोटर यानों और ट्रैक्टरों का वर्णन	दर	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1(1)	शक्ति चालित साइकिल और शक्ति चालित साइकिल रिक्शे।	कुछ नहीं	—
2.	1(1)	विकलांगों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटर यान।	कुछ नहीं	—
3.	1(1)	एक सौ घन सेंटीमीटर से अधिक की इंजिन क्षमता वाले दो पहियों वाले मोटर यान।	मूल्य का दस प्रतिशत	—
4.	1(1)	तीन पहियों वाले आटो रिक्शा	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	—
5.	1(1)	तीन पहियों वाली सैलून कारें	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	यदि—

- (1) ऐसे अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से निम्न पंक्ति का न हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी तीन पहियों वाली सैलून कारें एकमात्र टैक्सियों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और
- (2) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से, जो इस निमित्त सम्बन्धित राज्य परिवहत प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क का संवाय किए जाने के पश्चात्, तीन पहियों वाली सैलून कारों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करें, इस आशय का प्रमाणपत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी तीन पहियों वाली सैलून कार को एक मात्र टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

1	2	3	4	5
6.	1(2)(1)	सैन्य कारों से निम्न मोटर यान	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	
7.	1(2)(1)	मोटर कारें	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	यदि— (1) ऐसे अधिकारी का, जो महायुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसी मोटर कारें एक मात्र टैक्सियों के रूप में उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित हैं; और (2) विनिर्माता उक्त अधिकारी को ऐसे अधिकारी से जो इस निमित्त सम्बन्धित राज्य परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, विनिर्माता द्वारा, शुल्क का संवाय किए जाने के पश्चात् मोटर कारों की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुमान करे, इस आशय का प्रमाण-पत्र देता है कि प्रत्येक ऐसी मोटर कार के एक मात्र टैक्सी के रूप में उपयोग किए जाने के लिए रजिस्ट्री-कृत किया गया है।
8.	1(2)(2)	मोटर यान	मूल्य का बीस प्रतिशत	
9.	1(3)	सैन्य कारों से निम्न मोटर यान	मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत	---
10.	1(3)	डम्पर, जो निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार हैं: (क) डम्पर का शुद्ध भार (जिसमें भारयोग (पेलोड) सम्मिलित नहीं है) 8 टन से अधिक है; (ख) डम्पर को 10 टन या उससे अधिक के अधिकतम भार योग के लिए डिजाइन किया गया है; और (ग) डम्पर को राजमार्ग से परे उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।	मूल्य का आठ प्रतिशत	---
11.	11	छा बार हार्स पावर 12 और उससे कम के ट्रैक्टर	कुछ नहीं	---
12.	11	छा बार हार्स पावर 12 से अधिक किन्तु 50 से अनधिक के ट्रैक्टर।	मूल्य का दस प्रतिशत	---
13.	11	छा बार हार्स पावर 50 से अनधिक के ट्रैक्टर	मूल्य का दस प्रतिशत	यदि ऐसे अधिकारी का, जो महायुक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर से निम्न पंक्ति का न हो यह समाधान कर दिया जाता है कि ऐसे ट्रैक्टरों का उपयोग एकमात्र कृषि के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “शक्ति चालित साइकिल” या “शक्ति चालित साइकिल रिक्शा” पद से, यथास्थिति, ऐसी यंत्र नोदित साइकिल या यंत्र नोदित साइकिल रिक्शा अभिप्रेत है जिसे आवश्यकता पड़ने पर पैडल से भी चलाया जा सकता है।

[का० सं० 349/1/34/82-टी०आर०यू०]

बी० लक्ष्मी कुमारन्, धवर सचिव

No 244/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 652 (E);—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles and tractors of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of) Item No. 34 of the First Schedule to the Central Ex-

cises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to the conditions, if any, laid down in the corresponding entry in column (5) thereof.

TABLE

S. No.	Sub-Item No.	Description of motor vehicles and tractors	Rate	Conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I(1)	Powered cycles and powered cycle rickshaws	Nil	—
2.	I(1)	Two-wheeled and three-wheeled motor vehicles specially designed for use by the handicapped.	Nil	—
3.	I(1)	Two-wheeled motor vehicles of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres.	Ten per cent. ad valorem	—
4.	I(1)	Three-wheeled auto-rickshaws.	Fifteen per cent. ad valorem	<p>If—</p> <p>(i) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said Officer) is satisfied that such three-wheeled saloon cars are required for use solely as taxis; and</p> <p>(ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the three-wheeled saloon car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said Officer may allow, to the effect that each such three-wheeled saloon car has been registered for use solely as a taxi.</p>
5.	I(1)	Three-wheeled saloon cars.	Fifteen per cent. ad valorem.	
6.	I(2)(i)	Motor vehicles other than saloon cars.	Fifteen per cent. ad valorem.	—
7.	I(2)(i)	Motor cars	Fifteen per cent. ad valorem.	<p>If—</p> <p>(i) an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (herein after referred to as the said Officer) is satisfied that such motor cars are required for use solely as taxis; and</p> <p>(ii) the manufacturer furnishes to the said Officer a certificate from an Officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the motor car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said Officer may allow, to the effect that each such motor car has been registered for use solely as a taxi.</p>

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
8. 1(2)(ii)	Motor vehicles	Twenty per cent. ad valorem.	
9. 1(3)	Motor vehicles other than saloon cars.	Fifteen per cent. ad valorem.	
10. 1(3)	Dumpers conforming to the following specifications.— (a) the net weight (excluding payload) of the dumper is more than 8 tonnes; (b) the dumper is designed for a maximum payload of 10 tonnes or more; and (c) the dumper is designed for use on the high way.	Eight per cent. ad valorem.	
11. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power 12 and below.	Nil	
12. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power exceeding 12 but not exceeding 50	Ten per cent. ad valorem.	
13. II	Tractors of Draw-Bar Horse Power exceeding 50.	Ten per cent. ad valorem.	If an Officer or below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that such tractors are used solely for agricultural purposes.

Explanation:— For the purposes of this notification, the expression “powered cycle” or “powered cycle rickshaw” means a mechanically propelled cycle or, as the case may be, mechanically propelled cycle rickshaw, which may also be pedalled, if any necessity arise for so doing.

[F. No. 349/1/34/82 TRU]

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1982

सं० 245/82-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 653(अ) — केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 116/78-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मई 1978 का आध्यात्म करते हुए केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद 11 के अन्तर्गत आने वाले ट्रैक्टरों को, जिनके अन्तर्गत कृषि ट्रैक्टर हैं, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देना है जितनी उक्त ट्रैक्टरों के मूल्य पर, जिसके अन्तर्गत किसान बचत उठाते आते या अन्य विशेष सामग्री को हथगत करने उपर्युक्त का जो ऐसे ट्रैक्टरों पर लगाया जा सकता हो या किन्हीं किया जा सकता हो या कम जा सकता हो, मूल्य सम्मिलित नहीं है, संगणित उक्त अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क में अधिक है।

[फा० सं० 349/1/34/82-टी०आर०यू०]

NO. 245/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 116/78-Central Excises, dated the 1st May, 1978, the Central Government hereby exempts tractors, including agricultural tractors, falling under sub-item II of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said

916G1/82—2

First Schedule, as is in excess of the duty of excise leviable under the said Act calculated on the value of the said tractors excluding the value of any weight-lifting or other specialised material handling equipment which may be mounted, fitted or fixed to such tractors.

[F. NO 349/1/34/82 TRU]

सं० 246/82 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

आ०का०नि० 654(अ) — केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 117/78-केंद्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मई, 1978 की अधिगत करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों को, जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर हैं, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देना है जितनी, यथास्थिति, उक्त अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क दरों के अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के बराबर है जितना उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 29 के अन्तर्गत आने वाले अन्तर्गत हजिनों पर पहले ही मदाय कर दिया गया है।

परन्तु यह तब जब कि पूर्वोक्त अन्तर्गत हजिना का उक्त मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अन्तर्गत ट्रैक्टर हैं, के विनिर्माण में मूल उपकरण पुर्जों के रूप में उपयोग किया गया है।

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन छूटों के सम्बन्ध में उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के नियम 56 के उपबन्धित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[फा० सं० 349/1/34/82-टी०आर०यू०]

NO. 246/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 117/78-Central Excises, dated the 1st May, 1978, the Central Government hereby exempts motor vehicles and tractors, including agricultural tractors, falling under Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, at the rate specified in the said First Schedule, as is equivalent to the duty of excise leviable under the said Act, or the additional duty leviable under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, already paid on the internal combustion engines falling under Item No. 29 of the said First Schedule:

Provided that the aforesaid internal combustion engines have been used as original equipment engines in the manufacture of the said motor vehicles and tractors, including agricultural tractors :

Provided further that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the said Central Excise Rules, is followed.

[F. N. 349/1/34/82-TRU]

न० 247/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 655(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 186/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 29 मई, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों और ट्रैक्टरों की, जिनके अंतर्गत ट्रैलर है, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम में छूट देती है जितनी सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अधीन उदग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क की रकम के बराबर है, जिसका उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों, ट्रैक्टरों, जिनके अंतर्गत ट्रैलर है, के पुर्जों और उपस्करों पर पहले ही संदाय कर दिया गया है,

परन्तु यह तब जब कि पूर्वोक्त पुर्जों और उपस्करों का उक्त मोटर यानों और ट्रैक्टरों, जिनके अंतर्गत ट्रैलर है, के विनिर्माण में मूल उपस्कर पुर्जों के रूप में उपयोग किया गया है :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन छूट का सम्बन्ध में उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के नियम 56क में उपबर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है :

[फा०सं० 349/1/34/82-टी०आर०यू०]

NOTIFICATION

NO. 247/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 186/82-Central Excises, dated the 29th May, 1982, the Central Government hereby exempts motor vehicles and tractors, including trailers, falling under Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is equivalent to the amount of additional duty leviable under the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), already paid on parts and accessories of motor vehicles and

tractors, including trailers, falling under Item No. 34A of the said First Schedule :

Provided that the aforesaid parts and accessories have been used as original equipment parts in the manufacture of the said motor vehicles and tractors, including trailers;

Provided further that in relation to the exemption under this notification, the procedure set out in rule 56A of the said Central Excise Rules, is followed.

[F. No 349/1/34/82-TRU]

न० 248/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 656(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का विधिवत् क्रम में अश्वत —

1. 115/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मई, 1978
2. 74/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मई, 1979
3. 75/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मई, 1979

[फा०सं० 332/9/82टी०आर०यू०]

NO. 218/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 656(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely :—

1. 115/78-Central Excises, dated the 1st May, 1978.
2. 74/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.
3. 75/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979

[F. No 332/9/82-TRU]

न० 249/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 657(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 के अंतर्गत आने वाले मोटर यानों, ट्रैक्टरों (जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर भी है) और ट्रैलरों के पुर्जों और उपसाधनों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त माल' कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि—

(i) किसी ऐसे अधिकारी को, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर की पदविति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि निम्नलिखित के विनिर्माण में, उक्त माल का मूल उपस्कर के पुर्जों के रूप में योग किया जाना आवश्यक है—

(क) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 29 के अंतर्गत आने वाले अंतर्दहन इंजन, या

(ख) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 34 के अंतर्गत आने वाले मोटर यान, ट्रैक्टर (जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर भी है) और ट्रैलर; या

(ग) उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों, ट्रैक्टरों (जिनके अन्तर्गत त्रिपि ट्रैक्टर भी हैं) और टेलरों के पुर्जों और उपसाधन और

(11) उक्त भाग II अध्यादेश में शिर्षक 'मोटर यानों, ट्रैक्टरों, त्रिपि ट्रैक्टरों, टेलरों और उपसाधनों' के अन्तर्गत आने वाले मोटर यानों, ट्रैक्टरों, त्रिपि ट्रैक्टरों, टेलरों और उपसाधनों के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार द्वारा 1944 के अध्यादेश 10 में दिये गये प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

[क्रा०सं० 332/9/82 टा०आर०सू०]

वा० लक्ष्मी कुमार्न, अधीक्षक सचिव

NO 249 82 CENTRAL EXCISES

GSR 657(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts parts and accessories of motor vehicles, tractors (including agricultural tractors) and trailers falling under Item No. 34A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as "the said goods"), from the whole

of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that —

(i) it is proved to the satisfaction of an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that the said goods are intended to be used as original equipment parts in the manufacture of —

(a) Internal Combustion Engines falling under Item No. 29 of the said First Schedule, or

(b) motor vehicles, tractors (including agricultural tractors) and trailers falling under Item No. 34 of the said First Schedule, or

(c) parts and accessories of motor vehicles, tractors (including agricultural tractors) and trailers falling under Item No. 68 of the said First Schedule; and

(ii) in respect of such use elsewhere than in the factory of production of the said goods, the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed

[F. No 332/9/82-TRU]

V LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

